

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 126]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 मार्च 2014—फाल्गुन 13, शक 1935

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2014

फा. क्र. 21-(7)-चार-2014-143.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 434-MP-HP-2014 दिनांक 24 फरवरी 2014 एवं सं. 434-म.प्र.-लो.स.-2014, दिनांक 24 फरवरी 2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक:-24 फरवरी, 2014  
05 फाल्गुन, 1935(शक)

## अधिसूचना

सं 434/म0प्र0-लो0स0/2014:- भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अपनी अधिसूचना संख्या 434/म0प्र0-लो0स0/2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 तथा उसमें समय समय पर हुए परिवर्तनों का अधिकमण करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के परामर्श से, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकार के अधिकारी को, ऐसे अधिकारी के सामने, उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में मध्य प्रदेश राज्य के यथा-विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है:-

## सारणी

| कम संख्या तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नाम | रिटर्निंग आफिसर   |
|--|-------------------|
| (1)  | (2)               |
| 1. मुरैना                                    | कलेक्टर, मुरैना   |
| 2. भिण्ड (अ.जा.)                             | कलेक्टर, भिण्ड    |
| 3. ग्वालियर                                  | कलेक्टर, ग्वालियर |
| 4. गुना                                      | कलेक्टर, शिवपुरी  |
| 5. सागर                                      | कलेक्टर, सागर     |
| 6. टीकमगढ़ (अ.जा.)                           | कलेक्टर, टीकमगढ़  |
| 7. दमोह                                      | कलेक्टर, दमोह     |
| 8. खजुराहो                                   | कलेक्टर, पन्ना    |
| 9. सतना                                      | कलेक्टर, सतना     |
| 10. रीवा                                     | कलेक्टर, रीवा     |
| 11. सीधी                                     | कलेक्टर, सीधी     |
| 12. शहडोल (अ.ज.जा.)                          | कलेक्टर, अनूपपुर  |
| 13. जबलपुर                                   | कलेक्टर, जबलपुर   |

| कम संख्या तथा संसदीय<br>निर्वाचन क्षेत्र के नाम | रिटर्निंग आफिसर    |
|---|--------------------|
| (1)   | (2)                |
| 14. मण्डला (अ.ज.जा.)                            | कलेक्टर, मण्डला    |
| 15. बालाघाट                                     | कलेक्टर, बालाघाट   |
| 16. छिन्दवाडा                                   | कलेक्टर, छिन्दवाडा |
| 17. होशंगाबाद                                   | कलेक्टर, होशंगाबाद |
| 18. विदिशा                                      | कलेक्टर, रायसेन    |
| 19. भोपाल                                       | कलेक्टर, भोपाल     |
| 20. राजगढ़                                      | कलेक्टर, राजगढ़    |
| 21. देवास (अ.जा.)                               | कलेक्टर, शाजापुर   |
| 22. उज्जैन (अ.जा.)                              | कलेक्टर, उज्जैन    |
| 23. मंदसौर                                      | कलेक्टर, मंदसौर    |
| 24. रतलाम (अ.ज.जा.)                             | कलेक्टर, झाबुआ     |
| 25. धार (अ.ज.जा.)                               | कलेक्टर, धार       |
| 26. इंदौर                                       | कलेक्टर, इंदौर     |
| 27. खरगौन (अ.ज.जा.)                             | कलेक्टर, खरगौन     |
| 28. खण्डवा                                      | कलेक्टर, खण्डवा    |
| 29. बैतूल (अ.ज.जा.)                             | कलेक्टर, बैतूल     |

आदेश से,  
(बर्नाडु जॉन)  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

**Dated:-24<sup>th</sup> February,2014**  
**05 Phalguna, 1935 (SAKA)**

## NOTIFICATION

No. 434/MP-HP/2014:-The Election Commission of India, in exercise of powers conferred by Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its Notification No.434/MP-HP/2008 dated 27<sup>th</sup> October, 2008 as amended from time to time, hereby designates in consultation with Government of the state of Madhya Pradesh, the Officer of the Government specified in column (2) of the Table below as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency, in the State of Madhya Pradesh and as specified in column (1) of the said table against such Constituency:-

### TABLE

| Serial No. & Name of the Parliamentary Constituency. | Returning Officer    |
|--|----------------------|
| (1)  | (2)                  |
| 1-Morena   | Collector, Morena    |
| 2-Bhind (SC)   | Collector, Bhind     |
| 3-Gwalior  | Collector, Gwalior   |
| 4-Guna   | Collector, Shivpuri  |
| 5-Sagar  | Collector, Sagar     |
| 6-Tikamgarh (SC)                                     | Collector, Tikamgarh |
| 7-Damoh  | Collector, Damoh     |
| 8-Khajuraho  | Collector, Panna     |
| 9-Satna  | Collector, Satna     |
| 10-Rewa  | Collector, Rewa      |
| 11-Sidhi   | Collector, Sidhi     |

| Serial No. & Name of the Parliamentary Constituency. | Returning Officer      |
|--|------------------------|
| (1)  | (2)                    |
| 12-Shahdol (ST)                                      | Collector, Anuppur     |
| 13-Jabalpur  | Collector, Jabalpur    |
| 14-Mandla (ST)                                       | Collector, Mandla      |
| 15-Balaghat  | Collector, Balaghat    |
| 16-Chhindwara  | Collector, Chhindwara  |
| 17-Hoshangabad                                       | Collector, Hoshangabad |
| 18-Vidisha   | Collector, Raisen      |
| 19-Bhopal  | Collector, Bhopal      |
| 20-Rajgarh   | Collector, Rajgarh     |
| 21-Dewas (SC)  | Collector, Shajapur    |
| 22-Ujjain (SC)                                       | Collector, Ujjain      |
| 23-Mandsaur  | Collector, Mandsaur    |
| 24-Ratlam (ST)                                       | Collector, Jhabua      |
| 25-Dhar (ST)   | Collector, Dhar        |
| 26-Indore  | Collector, Indore      |
| 27-Khargone (ST)                                     | Collector, Khargone    |
| 28-Khandwa   | Collector, Khandwa     |
| 29-Betul (ST)  | Collector, Betul       |

By Order,  
(BERNARD JOHN)  
Secretary,  
Election Commission of India.